



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49) नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4-दिसम्बर 10, 2004 (अग्रहायण 13, 1926)
No. 49) NEW DELHI, SATURDAY DEC. 4-DEC. 10, 2004 (AGRAHAYANA 13, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I-खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 नवम्बर 2004

सं० ए० 22017/3/2004-पी०एम०ए०-उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संग्रह के निजी सचिव और प्रधानमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री आर० वेंकटरुण्ण ने कार्यकारी निदेशक (भारत), विश्व बैंक, व.शिगटन, यू० एस० ए० के कार्यालय में कार्यक्रम सहायक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में दिनांक 11 नवम्बर, 2004 के अपराह्न से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 नवम्बर 2004

सं० आर० एस०/41(i) 2004/92 कामिष्ठ-राज्य सभा के माननीय सभापति ने संसदीय भाषांतर के ग्रेड में 1-352 GI/2004

(1245)

निम्नलिखित व्यक्ति के संबंध में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना (एग्जोड कैरियर प्रोमोशन स्कोम) के अनुसार 26 नवम्बर, 2004 से वित्तिय उन्नयन की मंजूरी देने की कृपा की है :

क्रम सं०	नाम	वर्तमान वेतनमान रुपये	संशोधित वेतनमान
1.	श्री जोय मैथ्यू	10,000-25-15,200 रुपये	12,000-375-16,500 रुपये

2. वित्तीय उन्नयन की अन्य शर्तें भर्ती और सेवा-शर्तें आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 के अनुसार होंगी।

वजुला जी० राजन, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० पी०एफ 2723(3)जोएन-5284/एएन-1/2004-डा० रणवीर कुमार ने शोध/सदम अधिकारों के ग्रेड में पार-वीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 2002 का अधिसूचना सं० पी० एफ० 2723(3) जो० एन० 4737/ए० एन-1/2002 के क्रम में है।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 2724(3)जी एन-5285/ए० एन-1/2004—श्रीमती मुसरत नौशाद ने शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि संपोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं० पी० एफ० 2724(3)जी० एन० 4792/ए० एन-1/2002 के क्रम में है।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 2725(3)जी एन-5286/ए० एन-1/2004—श्री संजीव सचदेवा ने शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि संपोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० पी० एफ० 2724(3)जी० एन० 4810/ए० एन-1/2002 के क्रम में है।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

सं० ए०-11011/1/97-प्रशा०-II—योजना आयोग के दिनांक 25-10-2004 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (आर्थिक शाखा) का पदधारण करने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को, एतद्द्वारा राजपत्रित (समूह 'ख') अधिकारी की हैसियत में 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में हो अधिक अधिकारों के रूप में तत्काल प्रभाव से पुनः पदनामित किया जाता है:-

(श्रीमती/श्री)

1. श्रीमती रेणु चौपड़ा
2. श्रीमती किरण गुप्ता
3. नरेश कुमार
4. वी० के० जैन
5. पी० नारायणन, तदर्थ

2. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (आर्थिक शाखा) का मूल पद धारण करने वाले निम्नलिखित अधिकारियों तथा जो वर्तमान में उच्च पद पर स्थानपन्न हैं, के पद भी, उनके मूल पद में राजपत्रित (समूह 'ख') अधिकारी की हैसियत में "आर्थिक अधिकारी" के रूप में तत्काल प्रभाव से परिवर्तित किये जाते हैं:-

(श्रीमति/श्री)

1. बी० बी० शर्मा
2. नारायण सिंह
3. सत्यासी प्रधान
4. वाई० एन० खरे
5. प्रेम सिंह
6. श्रीमति एस० डी० पद्मनाभन

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2004

सं० ए-11011/1/97-प्रशा० II—योजना आयोग के दिनांक 26-10-2004 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, शिक्षा, परियोजना मूल्यांकन और समाजशास्त्र क्षेत्रों में जो सी एस पदों को धारण करने वाले निम्नलिखित अधिकारियों के पदों को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप से 6500-200-10500/- रु० के उसी वेतनमान में, राजपत्रित (ग्रुप ख) वर्ग में क्रमशः आर्थिक अधिकारी, शिक्षा, परियोजना मूल्यांकन और समाजशास्त्र के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है:-

1. श्रीमती सुजाता पी० शनवरा, आर्थिक अधिकारी (शिक्षा)
2. श्री बी० गणेश राम, आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र), तदर्थ

2. उपरोक्त शाखाओं के निम्नलिखित अधिकारी जो वरिष्ठ अनुसंधान सहायक के मूल पदों पर हैं तथा वर्तमान में योजना आयोग में तदर्थ अम्बार पर अनुसंधान अधिकारी जैसे उच्च पदों पर स्थानपन्न हैं, उनके पद भी राजपत्रित (समूह 'ख') अधिकारी की हैसियत में उनके मूल पदों पर "आर्थिक अधिकारी" के रूप में तत्काल प्रभाव से परिवर्तित किये जाते हैं:-

(श्रीमति/श्री)

1. एन० वेकटेश्वरलू, आर्थिक अधिकारी (शिक्षा)
2. बाबू लाल, आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)
3. के० के० महबूबा, आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)
4. जोसेफ एम० यूजि रज, आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)
5. श्याम सिंह, आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)
6. डा० आर० वी० पी० सिंह, आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2004

सं० ए-22011/2/2004-प्रशासन-4—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के दिनांक 25 अगस्त, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11019/2/2004 एसएसएस के तहत सूचित अनुमोदन के अनुसरण में, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-1 (7450-15100 रु०) तथा सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II (6500-10,500 रु०) के समूह "ख" राजपत्रित पदों को क्रमशः सांख्यिकी अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड) (समूह "ख" राजपत्रित) तथा सांख्यिकी अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित) के रूप में तत्काल प्रभाव से पुनः पदनामित किया जाता है। तदनुसार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के निम्नलिखित सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I और II के पदों को परिवर्तित कर दिया गया है :—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पदनाम	संशोधित परिवर्तित पदनाम
1.	श्री बी०के० शर्मा सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I		सांख्यिकी अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड)
2.	श्री आर०पी० भाटिया सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II		सांख्यिकी अधिकारी

रवजीत सिंह, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं० ए० 12026/6/2004-प्रशा० I (वि० वि०)—भारत के राजपत्र में सं० 34, 21 अगस्त-27 अगस्त, 2004 पर प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 05-08-2004 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, श्री बी० एस० पट्टियाल की रोकड़ अधिकारी के पद पर न्यायाधीश का तारीख "482004 (अनरक्त)" के स्थान पर "28-9-2004" पढ़ी जाए।

एम० दास, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

सं० के० 13017/3/2003-यू०एस० II (i)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री होरेन्द्र नाथ शर्मा (ii) श्री अजय प्रसाद कटकी (iii) श्री मती आणम, हाजिरका (iv) श्री अनोकरण पाल और (v) श्री माईबम बिनयकुमार सिंह को उसी बरीयत क्रम में, उस तारीख, जब से वे अपना अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश सहित नियुक्त करते हैं।

श्री० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 नवम्बर 2004

सं० के० 13027/1/2003-यू०एस० II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री प्रीतम पाल, (2) श्रीमती निर्मल यदव (3) श्री बलदेव सिंह (4) श्री भरत मोहन अग्रवाल (5) श्री सीताराम अग्रवाल को उसी बरीयत क्रम में, जब से वे अपना अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संयुक्त नियुक्त करते हैं।

श्री० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं० के० 11017/8/2004-यू०एस० II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत, न्यायविद् श्री नवदीप कुमार सोदी केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में करते हैं। और उन्हें निवेश देते हैं कि वे दिनांक 22 नवम्बर, 2004 को या उससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करें।

श्री० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 09 नवम्बर, 2004

सं० के० 11019/5/2004-यू०एस० 2 (पार्ट ०)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायविद् श्री फखरुद्दीन, छत्तिसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायविद् श्री ए० एस० बी०मूर्ती, मुख्य न्यायाधीश जो छुट्टी पर जा रहे हैं को अनुपस्थिति में, दिनांक 16-11-2004 से 26-11-2004 तक (दोनों शामिल) उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार करने के लिए संयुक्त नियुक्त करते हैं।

श्री० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2004

सं० 14031/1/2003-यू०डी०एस०—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरुणाचल प्रदेश गोरामोरेम-संव राज्य क्षेत्र संयुक्त संवर्ग के 1984 बैच के अधिकारी श्री ए० के० पैदान्डी, अधिवृत्ति को आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2004 अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्री० के० कामरा, अवर सचिव

सं० 14031/1/2003-यू० टी० एस०—भारतीय पुलिस सेवा के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-सच राज्य क्षेत्र संयुक्त संवर्ग के 1977 बैच के अधिकारी श्री एम० एफ० जे० परेरा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्तूबर, 2004 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2004

सं० 14034/19/2004-रा०भा० (प्रशि०)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के फल-स्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केन्द्रीय हिन्दी प्राविण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में सुश्रो सुदेश कौर, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी अशुलिपि) को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/ हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उपा निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी अशुलिपि) के पद पर रुपये 10000-325-15200 के वेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 1 नवम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० रमणन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिक्षायात तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली 110067, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं० 13019/3/2003-अकादमी डेस्क—दिनांक 15-10-2004 से स्वीचिडक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री बिनोद कुमार, भा० प्र० से० (नागालैंड : 70) 15-10-2004 (अपराह्न) से निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरा के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2004

सं० ए-32013/1/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री अलोक टण्डन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश - 83) को उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के सेवानिवृत्ति की शेष अवधि के लिए 19-6-2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जब भी पहले हो, 02 नवम्बर 2004 पूर्वाह्न से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलकुट्टी, अवर सचिव

भारतीय दूतावास

मॉस्को

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं० चा/596/7/2004--फू/पो०/ए०-I/551/1/04 रूसी संघ के भारतीय राजदूत पद पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप

श्री कवल प्रियल ने 17 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न में मॉस्को में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया।

संजीव कोहली, परामर्शदाता एवं चांसरी प्रमुख

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 2004

सं० डी--III/460/सी एफ--25/2004—भारत के राष्ट्रपति ने श्री अमित चौहान को मुम्बई में स्लोवाक गणराज्य के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री अमित चौहान के कौंसल क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य होंगे।

पी० पी० सीरकार, प्रोतीकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 01 नवम्बर 2004

सं० डी-III/460/सी एफ-31/1993—भारत का राष्ट्रपति, कोलकाता में मालदीव के मानद कौंसल, श्री चंद्र शेखर जयसवाल को 27 मई, 2004 से मानद प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी० पी० सीरकार, प्रोतीकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2004

सं० 89 (सा० सं० ए०-19013/25/2004-प्रशा० 1)—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के श्री सत्याजित मोहन्तो, को दिनांक 18-10-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश होने तक राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तत्कालीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी तत्कालीन अधिकारी (टी० आर० यू०) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 2 नवम्बर, 2004

सं० 96(फा० सं० ए०-19011/7/2003-प्रशासन-I)—राजस्व विभाग के केन्द्रीय आर्थिक आयुक्ता ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) 1917 के अधिकारी डा० यू० के० सेन, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्तूबर, 2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं० 97 (फा० सं० ए०-19011/13/2004-प्रशा०-I)--- राष्ट्रपति, श्री आर० के० तिवारी, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को 1-11-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य और पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० ए० 19011/20/2004-प्रशा०-II---राष्ट्रपति, श्री नागाराज मडिडरला भा० प्र० से० (एमटी : 93) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी चार वर्षों अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त करते हैं।

एस० सौन्दर राजन, अवर सचिव

(वैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2004

फा० सं० 13/5/2004-डोआरटी---बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को शोहरा ऋणों को वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) को धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डा० एस० डी० सिंह, अवर विभाग पंजीयन, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली को 18-10-2004 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए ऋण वसूली अधिकरण-I, कोलकाता में पाठासीन अधिकारों के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह 11 नवम्बर, 2004 के समसंख्यक अधिसूचना के अधिसूचना में हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० ए-19011/2/2001-एच आर-II---सहज प्रधिकारी एफआईसीसी में कार्यरत श्री आर० अशोकन, आई०सी०ओ० ए०एस०(89), निदेशक (लगत मूल्यांकन) को रुपये 14300-400-18300/- के वेतनमान (गैर-कार्यात्मक चयन

ग्रेड) में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 4 जनवरी, 2006 तक के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

ओम प्रकाश, डेस्क अधिकारी (एच०आर०-II)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

सं० ए-11013/01/2004-प्रशा० 1(ए)---राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में, श्री योगेश कुमार बूटा, आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (तदर्थ), को माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के वैयक्तिक स्टाफ में 6,500-10,500/ रुपये के वेतनमान में सहायक निजी सचिव के रूप में 12 अक्टूबर, 2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री योगेश कुमार बूटा को नियुक्ति, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के सहायक निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा माननीय राज्य मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

3. वे अपना वेतन आदि, सामान्य नियमों के अन्तर्गत अपने ग्रेड की पात्रता के अनुसार ग्रहण करेंगे।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2004

सं० ए-12023/1/03-प्रशा० 1 (ए)---इस विभाग की दिनांक 29 जून, 2004 तथा 19 अगस्त, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवलय आशुलिपिक सेवा वर्ग के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड 'सी', आशुलिपिकों की 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 31-12-2004 तक अथवा नियमित चयन सूची अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :—

1. श्री अनिल कथूरिया
2. श्री राम प्रकाश
3. श्रीमती कृष्णा माथुर
4. श्री बृज नाथ
5. श्री एस० वी० मोहन
6. श्री जितेन्द्र प्रसाकर

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

सं० ए-19012/14/2004-ई० ए०—राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा (आई० ई० एस० : 84) की गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड (एन० एफ० एस० जी०) अधिकारी श्रीमती सूनन्दा शर्मा को 20 सितम्बर, 2004 को पूर्वाह्न से 14,300-18,300 रु० के वेतनमान में अधिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अतिरिक्त अधिक सलहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० 2-8/2002-एनआरएम-3—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अंतर्गत अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (जी०सी०एस०, समूह 'क' राजस्वित वेतनमान 8000-13,500/- रु०) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पुष्टि की तारीख
	श्री/डा०	
1.	एस० के० शर्मा	16-4-1992
2.	काशी राम	21-3-1992
3.	टी० के० देव	31-5-1993
4.	ए० के० बर्मन	25-3-1993
5.	आर० एल० मोणा	7-5-1998
6.	आर० कुलकर्णी	9-1-2002
7.	एस० रायचौधरी	3-9-2002
8.	एस० पी० सिंह	18-12-2002

एस० पी० कामस, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं० ए-19011/13/2001-स्था०— राष्ट्रपति, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-09-2004 के० का० जा० सं० 4/17/2001-ई०ओ (एम० एम० आई) के अनुसारण में और सजम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री आर० एस० बुन्दरू, भा० प्र० से० (हरियाणा: 90) को वर्गिा रुा से 17-9-2004 से उनके विस्तारित कपकाल को शेष अाधि तक जो 22-7-2006 तक होगी, निर्देशक के रुा में पुनः पदनामित करते हैं। श्री बुन्दरू इस सारा उा संचार के पद पर कार्यरत हैं।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2004

सं० ए-19011/1/2004-स्था० (जनजातीय कार्य)— के० सि० से० (गैर) विा वता, 1972 के निर 48(1)क के अधीन सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति पर राष्ट्रपति की स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के के० सं० से० संवर्ग की समूह "ख" राजस्वित अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) और वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय में तैनात श्रीमती प्रोमिता कम्बोज 1-11-2004 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

सं० पी एफ-333/प्रशा० I—अतिरिक्त विा को आयु पूरी होने पर श्री जी० सी० झा, उा बेतार सहाकार, डब्ल्यू० पी० सी० विा, दूरसंचार विभाग 31 अक्टूबर, 2004 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस० के० वर्मा, उप सचिव (प्रशा०)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2004

सं० ए-12026/4/2001-स्था०—राष्ट्रपति, श्री जे० सी० तलवार, मुख्य प्राधनकार (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, "ख", राजपत्रित, अनुसूचिवीय) की तदर्थ नियुक्ति की 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में दिनांक 13-11-2004 से छः महीने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो सर्व्व वृद्धांश हैं। अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी जैसी इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं० 137/2003 दिनांक 13-11-2003 (ए-12026/4/2001-स्था०) में दर्शाये गई हैं।

सुदेश कुमार झाड़ी, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 2004

सं० ए-11019/3/2003-स्था०-I—नियुक्ति मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2004 के पत्र सं० 14013/1/2003-आई० ई० एस० के अनुसरण में, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में वरिष्ठ अन्वेषक (भारतीय आर्थिक सेवा का फोडर पद) के पद को 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में 'समूह 'ख' राजपत्रित' के रूप में पुनर्गठित किया जाता है और "आर्थिक अधिकारी" के रूप में तत्काल प्रभाव से पुनः पदनामित किया जाता है।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

सं० 27/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-I—अधिवृत्ति को आयु प्राप्त होने पर, श्री जी० के० फरलिया, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के अधिकारी जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (जल विद्युत) के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 सितम्बर, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सं० 28/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-I—अधिवृत्ति को आयु प्राप्त होने पर, श्री वाई० पी० एस० बोहल, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर

कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 सितम्बर, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सं० 29/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-I—अधिवृत्ति को आयु प्राप्त होने पर, श्री एन० एल० खुराना, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 सितम्बर, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सं० 30/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-I—अधिवृत्ति को आयु प्राप्त होने पर, श्री आर० ए० खान, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 सितम्बर, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० 31/2004-मि० सं० ए-38012/1/2003-प्रशा०-I—गुजरात विद्युत रेगुलेटरी कमीशन में सदस्य के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री मन मोहन, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 11 मई, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सं० 32/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-I—उत्तर प्रदेश उर्जा रेगुलेटरी कमीशन में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री विजय कुमार, जोकि उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में सदस्य सचिव/मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 21 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सं० 33/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-I—
पश्चिम बंगाल विद्युत रेगुलेटरी कमीशन में सदस्य के पद पर
नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री पी० रे, जोकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय
विद्युत बोर्ड, शिलांग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय
विद्युत इंजीनियर (समूह-क) सेवा में सदस्य सचिव/मुख्य
अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से
1 नवम्बर, 2004 के पूर्वार्द्ध से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

सं० 34/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा०-1—
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री सी० आर० भौमिक,
जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी
(समूह-क) सेवा में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे,
भारत सरकार की सेवा से 31 अक्तूबर, 2004 के अन्तर्द्वारा
से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर० सी० अरोड़ा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2004

सं० 7/22/2003-सोजीडब्ल्यूबी राष्ट्रपति, निम्नलिखित
अधिकारियों को पदोन्नति पर केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड में
14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में बैज्ञानिक 'घ'

ग्रेड में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई
तारीख से नियुक्त करते हैं :

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री के० कीर्तिसोलन	09-09-2004
2.	श्री आर० चक्रपणि	31-08-2004
3.	श्री एम० सी० रेड्डी	02-09-2004

सीहन एस० सेनी, अवर सचिव

महासगर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003 दिनांक, 17 नवम्बर 2004

सं० मविप्र/18/10/2002-स्या-र.प्रशा.वि.डा० प्रवक्ता
मिश्रा को महासगर विकास विभाग के संबद्ध कार्यालय परि-
योजना निदेशालय, एकीकृत तटाय एवं समुद्रो क्षेत्र प्रबंधन,
चेन्नई में सीधा भर्ती आधार पर अगले आदेशों तक 20 अक्तूबर,
2004 के पूर्वार्द्ध से 12,000-375-16,500/- रुपये के
वेतनमान में (समूह 'क' राजपत्रित, बैज्ञानिक) बैज्ञानिक
'डी' के पद पर नियुक्त करते हैं।

वे रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में न्यून-
तम 12,000/- रुपये का वेतन अहरेत करेंगे और उनको
अगला वेतन वृद्धि जब तक कि बदला न जाए, 1-10-2005
होगी।

के० नारायणन, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 11th November 2004

No. A. 22017/3/2004-PMA.—Shri R. Venkatakrishnan, Private Secretary of CSSS cadre of Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers and appointed as Assistant Private Secretary to the Prime Minister has relinquished the charge of the post on the personal Staff of Prime Minister with effect from the afternoon of November 11, 2004 to take up the assignment of Programme Assistant in the Office of Executive Director (India), World Bank, Washington, USA.

P.K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 19th November 2004

No.RS/41(i)/2004/92-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to sanction financial upgradation in accordance with the Assured Career Progression Scheme in respect of the following person in the grade of Parliamentary Interpreter with effect from 26th November, 2004 :—

Sl. No., Name, Present Pay Scale, revised Pay Scale, Shri Joe Mathew Rs. 10,000-325-15,200, Rs. 12,000-375-16,500.

2. The other conditions of the financial upgradation would be as per the Recruitment and Conditions of Service, Order, dated the 5th October, 2001.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 16th November 2004

No. PF. 2723(3)/GN-5284/AN-I/2004.—Dr. Ranbir Kumar has satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer.

2. This is in continuation of Notification No. PF. 2723(3)/GN-4737/AN-I/2002 dated 24th April, 2002.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2724(3)/GN-5285/AN-I/2004.—Smt. Musarrat Naushad has satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer.

2. This is in continuation of Notification No. PF. 2723(3)/GN-4737/AN-I/2002 dated 4th July, 2002.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2725(3)/GN-5286/AN-I/2004.—Shri Sanjeev Sachdeva has satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer.

2. This is in continuation of Notification No. PF. 2724(3)/GN-4810/AN-I/2002 dated 16th August, 2002.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 26th October 2004

No. A-11011/1/97-Admn. II.—Pursuant to Planning Commission's Order of even number dated 25.10.2004, the following officers holding posts of Senior Research assistant (Eco. discipline) in the Planning Commission are hereby redesignated as Economic Officers in the same scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with Gazetted (Group 'B') status with immediate effect:—

1. Mrs. Renu Chopra
2. Mrs. Kiran Gupta
3. Shri Naresh Kumar
4. Shri V. K. Jain
5. Shri P. Narayanan, ad-hoc.

2. The designation of the following officers who are substantive SRAs (Eco. discipline) and are presently officiating on higher posts is also changed to 'Economic Officer' with immediate effect and with Gazetted (Group 'B') status on their substantive posts :—

1. Shri B. B. Sharma
2. Shri Narain Singh
3. Shri Sanyasi Pradhan
4. Shri Y. N. Khare
5. Shri Prem Singh
6. Mrs. S. D. Padmanabhan

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 27th October 2004

No. A-11011/1/97-Admn. II.—Pursuant to Planning Commission's Order of even number dated 26.10.2004, the following officers holding GCS posts of Senior Research Assistant of education, Project Appraisal and Sociology disciplines in the Planning Commission are hereby redesignated as Economic Officers in Education, Project Appraisal and Sociology disciplines respectively in the same scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with Gazetted (Group 'B') status with immediate effect :—

1. Mrs. Sujatha P. Shanbagh, E. O. (Education)
2. Shri B. Ganesh Ram, E. O. (Sociology), ad-hoc

2. The designation of the following officers who are substantive SRAs of the aforesaid disciplines and are presently officiating on higher posts as Research Officers in

the Planning Commission on ad-hoc basis is also changed to 'Economic Officers' with immediate effect and with Gazetted (Group 'B') status on their substantive posts :—

1. Shri Venkateswarlu, E.O. (Education)
2. Shri Babu Lal, E. O. (Sociology)
3. Shri K. K. Makwana, E. O. (Project Appraisal)
4. Shri Joseph M. Eugen Raj, E. O. (Project Appraisal)
5. Shri Shyam Singh, E. O. (Project Appraisal)
6. Dr. R. V. P. Singh, E. O. (Project Appraisal)

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 2004

No. A-22011/2/2004-Admn. IV.—In pursuance of the approval as communicated by the Ministry of Statistics and Programme Implementation Office Memorandum No. 11019/2/2004-SSS dated 25th August 2004 the Group B Gazetted posts of Statistical Investigator Grade-I (Rs. 7450—11500) and Statistical Investigator Grade-II (Rs. 6500—10500) in Programme Evaluation Organisation, Planning Commission are being re-designated as Statistical Officer (Senior Grade) (Group B Gazetted) and Statistical officer (Group B Gazetted) respectively with immediate effect. The designation of the following Statistical Investigators Grade I & II of the Programme Evaluation Organisation has been changed accordingly :—

Sl. No.	Name	Present Designation	Revised Changed Designation
S/Shri			
1.	V. K. Sharma	Statistical Investigator Grade-I	Statistical Officer (Senior Grade)
2.	R. P. Bhatia	Statistical Investigator Grade-II	Statistical Officer

RAVJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 9th November 2004

CORRIGENDUM

No. A. 12026/6/2004-Admn. I (L. D.).—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 05.08.2004 published in the Gazette of India No. 34, August 21—August 27, 2004 the date of appointment of Shri B. S. Patial as Cash Officer may be read as "28.09.2004" instead of "04-08-2004" (afternoon).

M. DAS, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 29th October 2004

No. K. 13017/3/2003-US. II(i).—In exercise of the power conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Hirendra Nath Sarma, (ii) Shri Brojendra Prasad Katakey, (iii) Smt. Anima Hazarika, (iv) Shri Alokbaran Pal, and (v) Shri Maibam Binoykumar Singh, to be Additional Judges of the Gauhati High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 4th November 2004

No. K. 13027/1/2003-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Pritam Lal, (ii) Smt. Nirmal Yadav, (iii) Shri Baldev Singh, (iv) Shri Madan Mohan Aggarwal, and (v) Shri Som Nath Aggarwal, to be Judges of the Punjab and Haryana High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 8th November 2004

No. K. 11017/8/2004-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Nauvdiv Kumar Sodhi, Chief Justice of the Kerala High Court, as the Chief Justice of the Karnataka High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Karnataka High Court on or before 22nd November 2004.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 9th November 2004

No. K. 11019/5/2004-US. II (Pt.).—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Fakhruddin, seniormost Judge of the Chhattisgarh High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court from 16.11.2004 to 26.11.2004 (both days inclusive) during the absence of Shri Justice A.S.V. Moorthy, Chief Justice proceeding on leave.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 18th November 2004

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Paitandy, Indian Administrative

Service Officer of 1984 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st October 2004.

K. K. KALRA, Under Secy.

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri M. F. J. Pereira, Indian Police Service Officer of 1977 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st October 2004.

K. K. KALRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 23rd November 2004

No. 14034/19/2004-OL (Trg.).—The President, on recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Ms. Sudesh Kapoor, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography), in the Pay Scale of Rs. 10000-325-15200, on promotion, with effect from the forenoon of 1st November 2004.

S. RAMANAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110 067, the 8th November 2004

No. 13019/3/2003-ACADEMY (DESK).—Consequent upon voluntary retirement w.e.f. 15.10.2004, Shri Binod Kumar, IAS (NL-70) has relinquished the charge of office of the Director in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie w.e.f. 15.10.2004 (afternoon).

JAGMOHAN GUPTA, Director

New Delhi, the 17th November 2004

No. A. 32013/1/2004-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Alok Tandan, IAS (UP : 86), as Director in Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 2nd November 2004 for the balance period of his Central deputation tenure which would be up to 19.6.2007 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

EMBASSY OF INDIA

Moscow, the 17th September 2004

No. Q/PA-I/551/1/04.—Consequent upon his appointment as Ambassador of India to the Russian Federation, Shri

Kanwal Sibal, assumed the charge of the post of Ambassador of India, Moscow on the forenoon of 17th September 2004.

SANJEEV KOHLI, Counsellor & Head of Chancery

New Delhi, the 29th October 2004

No. D-III/460-CF-25/2004.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Amit Choksey as Honorary Consul of the Slovak Republic in Mumbai with immediate effect.

The Consular jurisdiction of Mr. Amit Choksey comprises the States of Maharashtra, Gujrat and Madhya Pradesh.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

The 1st November 2004

No. D-III/460-CF-31/1993.—The President of India is pleased to appoint Mr. Chandra Shekhar Jaiswal, Honorary Consul of Maldives in Kolkata, as Honorary Consul General with effect from May 27 2004.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 19th October 2004

No. 89 (F. No. A. 19013/25/2004-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri Satyajit Mohanty, IRS (C & CE) as Technical Officer in the the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 18.10.2004 (FN) and until further orders. He is posted as Technical Officer (TRU).

PREETI PANT, Under Secy.

The 2nd November 2004

No. 96 (F. No. A. 19011/7/2003-Ad. I).—Dr. U. K. Sen, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) : 1967, posted as Director General, Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st October 2004 (AN) on attaining the age of superannuation.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 97 (F. No. A. 19011/13/2004-Ad. I).—The President of India is pleased to appoint Shri R. K. Tewari, IRS (C&CE) : 68 as Member of the Central Board of Excise & Customs and Ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue w.e.f. 01.11.2004 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 16th November 2004

No. A. 19011/20/2004-Ad. II.—The President of India is pleased to appoint Shri Nagaraju Maddirala, IAS (MT : 93) as a Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 16th November 2004 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 11th November 2004

No. 13/5/2004-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (I) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby appoints Dr. S. D. Singh, Additional Legislative Counsel, Ministry of Law and Justice, New Delhi, as Presiding Officer, DRT No. I, Kolkata on deputation basis for a period of five years with effect from 18.10.2004 (F. N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

This supercedes Notification of even No. dated 11th November 2004.

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

 MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 16th November 2004

No. A-19011/2/2001-HR-II.—The Competent Authority has extended the deputation period of Shri R. Asokan, ICoAS (89), Director (Cost Evaluation), FICC (Non-Functional Selection Grade) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- for the period upto 4th Jan. 2006 or until further orders whichever event takes place earlier.

OM PARKASH, Desk Officer (HR-II)

 MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 11th October 2004

No. A-11013/01/2004-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Kumar Butta, Steno Grade 'C' (Ad-hoc) in the Department of Science and Technology as Assistant Private Secretary in the personnel staff of Hon'ble Minister of State for Science & Technology (I. C.) and Ocean Development in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500/- with effect from the forenoon of 12th October 2004.

2. The appointment of Shri Yogesh Kumar Butta, would be for such period till he ceases to work as Assistant Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Science and Technology (I. C.) and Ocean Development or co-terminus with the term of Hon'ble MOS or until further orders, whichever event takes place earlier.

3. He will draw his pay etc. in his respective grade as per his entitlement under normal rules.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

The 11th November 2004

No. A-12023/1/03-Admn. I (A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 29th June, 2004 and 19th August, 2004 the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of under-mentioned permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Private Secretaries in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Science and Technology upto 31.12.2004 or till regular select list Officers join, whichever is earlier :—

1. Shri Anil Kathuria
2. Shri Ram Prakash
3. Smt. Krishna Mathur
4. Shri Brij Nath
5. Shri S. V. Mohan
6. Shri Jatender Prabhakar

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

 MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

New Delhi-110011, the 27th October 2004

No. A-19012/14/2004-EA.—The President is pleased to appoint Smt. Sunanda Sharma, a Non-Functional Selection Grade (NFSG) Level Officer of Indian Economic Service (IES : 84), to the post of Additional Economic Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 14,300-18,300/-, with effect from the forenoon of the 20th September 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th November 2004

No. 2-8/2002-NRM. III.—The President is pleased to appoint the following Officers substantively to the posts of Assistant Soil Survey Officer (G.C.S. Group 'A', Gazetted-Scale : Rs. 8000-13,500) in the All India Soil & Land Use Survey Organisation under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) with effect from the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1	2	3
	S/Shri/Dr.	
1.	S. K. Sharma	16.4.1992
2.	Kashi Ram	21.3.1992

1	2	3
3.	T. K. Deb	31.5.1993
4.	A. K. Barman	25.3.1993
5.	R. L. Meena	07.5.1998
6.	R. Kulkarni	09.1.2002
7.	S. Roychowdhury	03.9.2002
8.	S. P. Singh	18.12.2002

M. P. THOMAS, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 8th November 2004

No. A-19011/13/2001-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training's OM No. 4/17/2001-EO (M. M.-I) dated 17.09.2004 and with the approval of the Competent Authority, the President is pleased to redesignate the post of Deputy Secretary presently held by Shri R. S. Vundru, IAS (HY : 90) as that of Director as a measure personal to him w.e.f. 1.7.2004 and upto the balance period of his extended tenure which would be upto 22.07.2006.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 01st November 2004

No. A-19011/1/2004-Estt (TA).—On acceptance of the voluntary retirement from Government Service under Rule 48(1)(a) of CCS (Pensinn) Rules, 1972 by the President, Smt. Promila Kamboj, Section Officer (Ad-hoc), Group 'B' Gazetted of the CSS Cadre of Ministry of Social Justice & Empowerment and presently posted in the Ministry of Tribal Affairs stands retired from Government Service w.e.f. the forenoon of 01.11.2004.

S. K. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 29th October 2004

No. PF-333/Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri G. C. Jha, Deputy Wireless Adviser, WPC Wing, Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2004.

S. K. VERMA, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 11th November 2004

No. A-12026/4/2001-Estt.—The President is pleased to extent the ad-hoc appointment of Shri J. C. Talwar, Chief Draftsman (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 beyond 13-11-2004 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this Ministry's Office Order No. 137/2003 dated 13-11-2003. (A-12026/4/2001-Estt.)

S. K. SHAHI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 18th November 2004

No. A-11019/3/2003-E.I.—In pursuance of the Ministry of Finance Department of Economic Affairs Letter No. 14013/1/2003-IES, dated 20-9-2004, the post of Senior Investigator (Feeder post of Indian Economic Service) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways is re-classified as "Group B Gazetted" in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 and re-designed as "Economic Officer" with immediate effect.

DR. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 26th October 2004

No. 27/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri G. K. Phartia borne in the Cadre of the Central Powers Engineering (Group 'A') Service and officiating as Member (Hydro) in the Central Electricity Authority, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th September, 2004 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 28/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri Y. P. S. Vohal, Deputy Director, Central Electricity Authority and an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th September, 2004 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 29/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri H. L. Kharana, Deputy Director, Central Electricity Authority and an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, retired from service under the Government of

India in the afternoon of 30th September, 2004 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 30/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri I. A. Khan, Deputy Director, Central Electricity Authority and an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th September, 2004 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 16th November 2004

No. 31/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri Man Mohan, Chief Engineer, Central Electricity Authority and an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, relieved from service under the Government of India in the forenoon of 11th May, 2004 consequent upon taking up the appointment as Member, Gujarat Electricity Regulatory Commission.

2. Shri Man Mohan, Chief Engineer will deem to have retired from the Government Service w.e.f. 11-5-2004 (forenoon).

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 32/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri Vijoy Kumar, Member Secretary/Chief Engineer, NREB, Central Electricity Authority, and an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, relieved from service under the Government of India in the afternoon of 21st October, 2003 consequent upon taking up in the appointment as Chairman, Uttar Pradesh Energy Regulatory Commission.

2. Shri Vijoy Kumar will deem to have retired from the Government Service w.e.f. 21st October, 2003 (afternoon).

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 33/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri P. Ray, Member Secretary/Chief Engineer, NEREB, Shillong, Central Electricity Authority, and an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, relieved from service under the Government of India in the forenoon of 1st November, 2004 consequent upon taking up the appointment as Member, West Bengal Electricity Regulatory Commission.

2. Shri P. Ray will deem to have retired from the Government Service w.e.f. 1st November, 2004 (forenoon).

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 34/2004 (F. No. A-38012/1/2004 Adm.I.).—Shri C. R. Bhaumik, Chief Engineer, Central Electricity Authority, an Officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st October, 2004 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd November 2004

No. 7/22/2003-CGWB—The President is pleased to appoint the following Officers in the grade of Scientist 'D' as Regional Director on promotion in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of promotion
	S/Shri	
1.	K. Keerthiseelan	09-09-2004
2.	R. Chakrapani	31-08-2004
3.	M. C. Reddy	02-09-2004

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 17th November, 2004

No. DOD/18/10/2002-Est.—The President of India is pleased to appoint Dr. Pravakar Mishra, as Scientist 'D' in the Project Directorate Integrated Coastal and Marine Area Management, Chennai an attached Office of the Department of Ocean Development in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- (Group 'A' Gazetted, Scientific) with effect from the forenoon of 20th October, 2004 on direct recruitment basis until further orders.

He will draw the pay of Rs. 12,000/- in the minimum of the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- and draw the next increment on 1-10-2005, unless changed.

K. NARAYANAN, Under Secy.